Uno Minda Limited

(Formerly known as Minda Industries Limited)



Ref. No. Z-IV/R-39/D-2/NSE/207 & 174

Date: 23/08/2023

National Stock Exchange of India Ltd.	BSE Ltd.
Listing Deptt., Exchange Plaza,	Regd. Office: Floor - 25,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),	Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Mumbai - 400 051	Dalal Street, Mumbai-400 001.
NSE Scrip: UNOMINDA	BSE Scrip: UNOMINDA; 532539

Sub: - Submission of the newspapers clippings

Dear Sirs.

This is in continuation of our letter dated 22 August, 2023.

We hereby enclose copy of the Notice for the attention of the Equity shareholders of the Company, published on 23 August, 2023 in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) newspapers in respect of information regarding 31st Annual General Meeting of the Company, scheduled to be held on Wednesday, 20 September, 2023 at 10.30 a.m. through Video Conference (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM).

nda

Delhi

This is for your information and records please.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Uno Minda Limited

Tarun Kumar Srivastava

Company Secretary & Compliance Officer

Srivastava

Tarun Kumar Digitally signed by Tarun Kumar Srivastava Date: 2023.08.23 16:44:24 +05'30'

Encl: As above.

FINANCIAL EXPRESS



Ummeed Housing Finance Pvt. Ltd Registered & Corporate office Unit 809-815, 8th Floor, Tower - A EMAAR Digital Greens Golf Course Extension Road, Sector-61,

Gurugram, 122002 (Haryana) CIN:U65922HR2016PTC057984.

APPENDIX II-A (See proviso to rule 6 (2)) E-Auction sale notice for sale of uncharged Movable Assets under the Securitization and

Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with provison to Rule 6(2) of the security Interest (Enforcement) Rule, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the /borrower(s) and Guarantor(s) that the below describe uncharged movable property/Assets to Secured Creditor, the Physical possession of uncharged Household article has been taken on 16.09.2022 while possession of mortgaged property by Authorized Officer of Ummeed Housing Finance Pvt. Limited Secured Officer. Despite several notices you did not claimed uncharged movable property/ assets, hence, will be sold on "As is where is". As is what is", and Whatever there is on 22.09.2023, for recovery of shortfall amount of Rs.3,78,065/- due to the Secured Creditor from

Mr. Amit Kumar S/o Lallan Yadav, Lallan Singh S/o Sipahi Singh & Asha Devi W/o Lallan Singh all residing at: H. No. 1062/C, Chitrakut Colony, Arthala, Gali no.4, Mohan Nagar, Ghaziabad-201007, and Vijay Shankar S/o. Maheshwari Deen R/o Mohan Nagar, Chitrakut Colony, Arthla, Ghaziabad, UP- 201007. Pls note:- in case of any shortfall (after adjustment of above sell proceed) shall be recovered from you addressees as per the securitisation and Reconstruction Of Financial Assets And Enforcement Of

Security Interest Act & Security Interest Enforcement Rules, 2002. The Reserve price will be Rs.7715/- and the earnest money deposit will be Rs.771.5/-List of Movable properties is attached herewith.

List of Household Articles (as per Authorized Valuer)

(1) Battery Local Qty. 1 (2) Inverter Luminious Qty.1 (3) Plastic Chair Qty. 1 (4) Wooden Dressing Qty. (5) Wooden Centre Table Qty.1 (6) Wooden Bed (Takat) Qty.1 (7) Gas Chula Damage Qty.1 (8) Fan Kitchen Small Qty. 1 (9) Double Bed Wooden Qty.1 (10) Wooden Showcase Qty.1 (11) Plastic Cooler Local (12) Gas Cylinder Size 15KG Qtv. 2 (13) Bed Foam Qtv. 4 (14) Cycle Damage Qtv.1 (15) Wooden Almira Qty. 1(16) Cylinder Small 5 KG Qty.1 (17) Suitcase Qty.2 (18) Small Baksa Qty.1 (19) LED 32 Inch Qty.1

Ummeed Housing Finance Pvt.Ltd. Date: 22.08.2023 KG PETROCHEM LIMITED

Authorised Officer, Gaurav Tripathi 9650055701

CIN: L24117RJ1980PLC001999 Registered Office: C-171, Road NO.9J, V.K.I. Area, Jaipur Rajasthan-302013 Email: jproffice21@bhavik.biz, Website: www.kgpetro.in

NOTICE OF 43RD ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that:-

Place: Gurugram, Harvana

- . The 43RD Annual General Meeting ("AGM") of the Members of KG Petrochem Ltd ("The Company") will be held on Friday, September 15, 2023 at 12:30 P.M. through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with the General Circulars 2/2022 and 19/2021, other circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 issued by the Securities and Exchange Board of India (hereinafter collectively referred as the "the Circulars") without the physical presence of the shareholders at a common venue.
- . In compliance of the circulars, electronic copies of Notice of AGM and the Annual Report for the financial year 2022-2023 have been sent to all the shareholders on August 22, 2023 whose e-mail addresses are registered with the Company Depository Participant(s). The requirement of sending physical copy of the Notice of AGM and Annual Report to the shareholders has been dispensed with vide MCA Circular(s) and SEBI Circular.
- . In compliance with Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of SEBI Listing Regulations (as amended) and Secretarial Standards on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Shareholders are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of AGM using electronic voting system (e-voting) provided by CDSL. The voting rights of Shareholders shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid up share capital of the Company as on September 08, 2023.

In this regards, the shareholders are hereby further informed that:

a. The remote e-voting period shall commence on Tuesday, September 12, 2023 at 09:00 A.M. (IST) and shall end on Thursday, September 14, 2023 at 5:00 P.M (IST). The remote e-voting will be disabled thereafter.

b. Shareholders may note that:

- i. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the same shall not be allowed to change it subsequently. ii. The facility for voting will also be made available during the AGM and those
- shareholders present in the AGM through VC facility, who have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting, shall be eligible to vote through the e-voting system during the AGM. The shareholder who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM
- may also attend the AGM, but shall not be entitled to cast their votes again; and iv. Only persons whose name is recorded in the register of shareholders or in the
- register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-of date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting a c. any person who acquires shares of the Company and become member of the
- Company after the dispatch of Notice of AGM and holding shares as on the cut-of date i.e. Friday, September 08, 2023 may obtain user id and password by following the procedures as mentioned in the Notice of AGM or by sending a request mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com or jproffice21@bhavik.biz. However if a person is already registered with CDSL for e-voting then existing user id and password can be used for casting vote. In case of queries with respect to attending AGM & e-Voting, shareholders may refer
- the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting user manual available at the website or contact Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai- 400013 at helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43.

The Notice, Annual Report 2022-23 and other relevant details are available on the company's website www.kgpetro.in, website of the Stock Exchange i.e. BSE Ltd. at www.bseindia.com and on CDSL website at www.evotingindia.com

> By order of the Board For KG Petrochem Ltd Himanshi Dhakad

Company Secretary & Compliance Officer Jaipur, August 23, 2023 M.No. A59385



PEGASUS ASSETS RECONSTRUCTION PRIVATE LIMITED 55-56,5th Floor Free Press House Nariman Point, Mumbai -400021 Tel: -022-61884700 Email: sys@pegasus-arc.com URL: www.pegasus-arc.com NOTICE OF SALE THROUGH PRIVATE TREATY

SALE OF IMMOVABLE ASSETS CHARGED TO PEGASUS ASSETS RECONSTRUCTION PVT LTD. UNDER THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 (SARFAESI ACT). he undersigned as Authorized Officer of Pegasus Assets Reconstruction Pvt. Ltd. (Pegasus) has taken over possession of the schedule property u/s 14 under the provision of SARFAESI Act in its capacity as Trustee of Pegasus Group Thirty-Nine Trust-2. In view of the aforesaid the below mentioned mortgaged property will be sold through Private Treaty on "As is where is", "As is what is" and "Whatever there is" basis with all known and unknown liabilities on 12.09.2023, for recover of Rs.47,14,263.85/- (Rupees Forty Seven Lakhs Fourteen Thousand Two Hundred Sixty Three and Eighty Five Paise Only) being the dues of M/s. Ambrosia Apparels as on 11/08/2023

The Reserve price will be Rs. 39,61,000/- (Rupees Thirty Nine Lakhs Sixty One Thousand Only and the earnest money deposit will be Rs. 3.96,100/- (Rupees Three Lakhs Ninety Six Thousand One Hundred Only).

plus interest w.e.f. 12/08/2023 plus, costs, charges and expenses thereon to Pegasus Assets

Reconstruction Pvt. Ltd. from M/s. Ambrosia Apparels. Guarantors/Co-borrowers- Smt. Pratibha Dimri (Proprietor & Co-Borrower), Sh. Chandra Mohan Dimri (Co-Borrower).

Public at large is informed that the secured property as mentioned in the Schedule are available for sale through Private Treaty, as per the terms agreeable to Pegasus. Standard terms & conditions for sale of property through Private Treaty are as under:

 Sale through Private Treaty will be on "AS IS WHERE IS BASIS" and "AS IS WHAT IS BASIS" and "WHATEVER THERE IS BASIS".

2. The purchaser has to deposit 10% of the offered amount along with application which will be adjusted against 25% of the deposit to be made as per clause (3) below.

3. The purchaser will be required to deposit 25% of the sale consideration on the next working day of receipt of Pegasus acceptance of offer for purchase of property and the remaining amount within 15 days thereafter. (Pegasus at its discretion may extent the 15 days' time and in any case it will not

4. Failure to remit the amount as required under clause (3) above, will cause forfeiture of amount already paid including 10% of the amount paid along with application. 5. In case of non-acceptance of offer of purchaser by Pegasus, the amount of 10% paid along with the application will be refunded without any interest.

6. The property is being sold with all the existing and future encumbrances whether known or unknown to Pegasus. The Authorized Officer / Secured Creditor shall not be responsible in any way for any third-party claims / rights / dues. 7. Bids shall be submitted through Offline/Application to our corporate Office address: Pegasus

Assets Reconstruction Pvt. Ltd. at 55-56, 5th floor, Free Press House, Nariman Point, Mumbai 400021. Bids should be submitted on or before 11.09.2023 till 4.00.p.m. Email address: nitin@pegasus-arc.com / surender@pegasus-arc.com In addition to the above, the copy of Pan card, Aadha card, Address proof, in case of the company, copy of board resolution passed by board of directors of company needs to submitted by the bidder.

8. The sale is subject to confirmation from Pegasus. If the borrowers/co-borrowers/quarantor pay the amount due to the Pegasus in full before date of sale, no sale will be conducted.

9. Intending Bidders shall deposit the aforesaid EMD/s on or before the date and time mentioned herein above by way of a Demand Draft / Pay Order drawn in favor of "Pegasus Group Thirty Nine Trust 2" payable at Mumbai or EMD by RTGS/NEFT/Fund Transfer to the credit of A/c no 409819116155, A/c name: - Pegasus Group Thirty Nine Trust 2, Bank Name: RBL Bank Limited, Branch Office: Ground Floor, Mittal Court, 224 Nariman Point, Mumbai-400021, MICR Code: 400176023, IFSC Code: RATN0000155.

10. The purchaser should conduct due diligence on all aspects related to the property (under sale through private treaty) to his satisfaction. The purchaser shall not be entitled to make any claim against the Authorized Officer / Secured Creditor in this regard at a later date.

11. The purchaser shall conduct due diligence upon the litigation pending against the secured asset. The purchaser shall not be entitled to make any claim against the Authorized Officer / Secured Creditor in this regard at a later date. **12.** Pegasus reserves the right to reject any offer of purchase without assigning any reason.

13. If any bidder submits its bid matching the reserve price (i.e. Rs. 39,61,000/-) and or above Pegasus will conduct an inter se bidding between the interested parties and sale will be knocked down in favor of the highest bidder.

14. The purchaser has to bear all stamp duty, registration fee, and other expenses, taxes, duties in respect of purchase of the property.

15. Sale shall be in accordance with the provisions of SARFAESI Act/Rules. 16. The interested parties may contact the Authorized Officer for further details / clarifications and for submitting their application. For the detailed terms and condition of the sale please refer to the link

provided in the secured creditors website i.e. "www.pegasus-arc.com" and you may contact Mr. Nitin Kashyap-8447636680 Mr. Surender Singh-8947960010. SCHEDULE **Description of the Property**

"Mig Flat No. F-1, 1st Floor (Without Terrace Rights), Plot No. 9/68, Judge Colony, Vaishali Ghaziabad (U.P.)-201001., Admeasuring Area 474.89 Sq.Mtr".

Reserve Price (Rs.) (Below which | Rs. 39,61,000/- (Rupees Thirty Nine Lakhs Sixty One the properties will not be sold) Thousand Only) **Earnest Money Deposit** Rs.3,96,100/- (Rupees Three Lakhs Ninety Six

Thousand One Hundred Only) This publication is also a 'Fifteen days' notice to the borrowers/guarantors under Rule 8 (6) & 9 (1)

of The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Date: 22/08/2023

Authorised Officer Pegasus Assets Reconstruction Private Limited (Trustee for Pegasus Group Thirty-Nine Trust 2) TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED Regd. Office: 11th Floor, Tower A, Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai – 400013. CIN No. U67190MH2008PLC187552. POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY)

(As per Appendix IV read with Rule 8(1) of the Security Interest Enforcement Rules, 2002)

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the Tata Capital Financial Services Ltd. under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a Demand Notices as below calling upon the Borrowers to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of the said notice.

The Borrowers, having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrowers, in particular and the public, in general, that the undersigned has taken Symbolic/Constructive Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) read with Rule 8 of the said Act. The Borrowers, in particular, and the public in general, are hereby cautioned not to deal with the property and any

dealings with the property will be subject to the charge of the Tata Capital Financial Services Limited, for an amount referred to below along with interest thereon and penal interest, charges, costs etc. from date of demand notice.

Account No.	Name of Obligor(s)/ Legal Heir(s)/ Legal Representative(s)	Date of Demand Notice	Date of Symbolic Possession
8704555	(1) MR. SHAKEEL AHMED; (2) HUMA AHMAD; Both R/o.: D-1/59-60, 3rd Floor Front Side, Jeewan Park, Uttam Nagar, Delhi- 110059 and (3) M/S. OWEAIS CREATION, Through Its Proprietor D-1/59-60, 3rd Floor Front Side, Jeewan Park, Uttam Nagar, Delhi- 110059	Rs. 36,21,474/- dated 11.05.2023	21.08.2023

Description of Secured Assets/Immovable Property : Front side, 3rd. Floor with Roof Rights, area measuring 100 Sq. Yds., "said Floor" built on Southern Portion area measuring 200 Sq. Yds., "Said Portion" Built on Plot Nos. 59 & 60, area measuring 500 Sq. Yds out of Khasra No. 16/25, Block D-1, situated in the Revenue State of Village Asalatpur Khadar, Colony known as Jeewan Park, Uttam Nagar, Delhi- 110059, more particularly described in Sale Deed dated 27-11 2017, executed in favor of Huma Ahmed. Bounded as: East: Road 20 Ft. West: Road 15 Ft. North: Portion of Plot, South : other's plot

TCFLA0 (1) Mr. Jitendra Singh, S/o. Mr. Ram Singh, Flat No. A-1004, Chitrakoot Dham, C.G.H.S. Ltd., Plot No. 2, Sector - 19, Dwarka, Delhi -110075; Also At: 25 Sarvouday Nagar, Pilkhua Dehat, Ghaziabad Pilkhauwa Post Office, Uttar Pradesh - 245304: (2) Mrs. Pravesh Singh alias Pravesh Raghav, W/o. Mr. Jitendra Singh,

Flat No. A-1004, Chitrakoot Dham, C.G.H.S. Ltd., Plot No. 2, Sector - 19, Dwarka, Delhi -110075 Also At: 25, Gandhi Bajar, V Sarvoday Nagar, Pilakhuva, Teh.: Hapur, Ghaziabad (UP) - 245101 and (3) M/s. Jatin Brick Field Flat No. 1543-44, Sector - 5, Vasundhra, Ghaziabad (UP) - 201012.

2,29,00,806/dated 17.05.2023

21.08.2023

<u>Amt. Due as per</u>

Demand Notice

Date & Amount Possession

Date of

Description of Secured Assets/Immovable Property: Flat No. A-1004, Chitrakoot Dham, C.G.H.S. Ltd., Plot No. 2, Sector - 19, Dwarka, Delhi- 110075, area of property 123 Sq. Mtr. more particularly described in Conveyance Deed dated 07.03.2018 executed in favour of Mr. Jitendra Singh, duly registered in SR - VII, vide Document no. 2925, Vol. 6651, pages 156-158, Book No. 1, dated 07.03.2018.

Date: 23.08.2023 Place: Delhi, NCR

S. Name of the Borrower(s) /

Loan Account Name Of Borrower

No And Loan

Place: Delhi

Date: 21.08.2023

Code No.

/ Co-Borrower /

Guarantor

SONU

Guarantor(s)

Sd/- Authorised Officer, For Tata Capital Financial Services Limited

AXIS BANK LTD. POSSESSION NOTICE Retaill Asset Centre: 1st Floor. G-4/5, B, Sector-4, Gomti Nagar Extension Lucknow, UP 226010.

Registered Office: "Trishul"- 3rd Floor, Opp. Samartheshwar Temple, Near Law Garden, Ellisbridge, Ahmedabad-380006.

Whereas the undersigned being the Authorized Officer of AXIS BANK LTD, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise or power conferred under Section 13 (12) read with Rule-9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand notice under section 13(2) of the said Act. The borrower/s mentioned herein below having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower's mentioned here in above in particular and to the public in general that the undersigned has taken Possession of the property described herein below in exercise of powers confer on him under section 13(4) of the said Act read with the rule8 of the Said Rules. The borrower's mentioned here in above in particular and the public in general are hereby cautioned not to be deal with the said property and any dealings with the said property will be subject to the mortgage of AXIS BANK LTD. for an amount together with further interest incidental expenses, costs, charges, etc. on the amount mentioned against each amount herein below. The Borrower(s)/Co-Borrower (s)/Mortgagor(s)/Guarantor(s) attention is invited to provisions of sub-section(8) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets.

Guarantors/Address Mortgaged Properties Mrs. Kuldeep Kour (Borrower) W/o Ranjeet Singh, Ranjeet Singh (Co-Borrower) S/o Kuldeep Singh both R/o Teerth Colony Khodal pur, Tehsil Bisalpur, Near B.K. Complax, District Rampur U.P. 244921. Boundaries as Per Site: East - Road, West - Plot Of Tirath Singh, North - Plot Of Jagmeet Singh, South - Road. Narendra Singh (Borrower) S/o Sh. Marendra Singh R/o-1. H.no. 717, Subhas Colony, Ward No. 14, Rudrapur, Udham Singh Nagar (UK) 263253, Rio-2. Khet No. 53/3 Vill-Rampura, Rudrapur, Udham Singh Rampura, Rudrapur, Udham Singh Nagar (UK) 263253, Tejinder Singh (Co-Borrower)S/o Sh. Narendra Singh R/o H.no. 717, Subhas Colony, Ward No. 14, Rudrapur, Udham Singh Nagar (UK) 263253, Tejinder Singh (Co-Borrower)S/o Sh. Narendra Singh R/o H.no. 717, Subhas Colony, Ward No. 14, Rudrapur, Udham Singh Nagar (UK) 263153 Date- 23.08.2023 Mortgaged Properties Possession Date Rs. 24,96,049.00 Rs. 27,96,049.00 Rs. 24,96,049.00 Rs. 30,191.1.2022 + interest & other expenses 23.11.2022 17.08.2023 Tr.08.2023 Tr.08.2023 Rs. 1,56,882.00 Rs. 27,88,375.52 as on 19.12.2022 + interest & other expenses 23.11.2022 + interest & other expenses 24.11.2022 + interest & other expenses 25.11.2022 + interest & other expenses 26.12.12.2022 + interest & other expenses 27.12.2022 + in	Name of the Borrowers/	Description of the charged/	Demand notice
Mrs. Kuldeep Kour (Borrower) W/o Ranjeet Singh, Ranjeet Singh (Co- Borrower) S/o Kuldeep Singh both R/o Teerth Colony Khodal pur, Tehsil Bisalpur, Near B.K. Complax, District Rampur U.P. 244921. Narendra Singh (Borrower) S/o Sh. Mangal Singh R/o-1. H.no. 717, Subhas Colony, Ward No. 14, Rudrapur, Udham Singh Nagar (UK) 263153, R/o-2. Khet No. 53/3 Vill- Rampura, Rudrapur, Udham Singh Nagar (UK) 263253, Tejinder Singh (Co- Borrower)S/o Sh. Narendra Singh R/o H.no. 717, Subhas Colony, Ward No. 14, Rudrapur, Udham Singh Nagar (UK) 263153 Land/property admeasuring area 139.40 sq. mt situated at Khet No. 53/3 Vill- Rampura, Rudrapur, Udham Singh Nagar (UK) 263253, Tejinder Singh (Co- Borrower)S/o Sh. Narendra Singh R/o H.no. 717, Subhas Colony, Ward No. 14, Rudrapur, Udham Singh Nagar (UK) 263153 Land/property admeasuring area 139.40 sq. mt situated at Khet No. 53/3 Vill- Rampura, Rudrapur, Udham Singh Nagar (UK) 263253 In The Name Of Narendra Singh Bounded as: East - Remaining Part Of H.no. 18, West - 9.14mt Wide Rasta, North - House No. 17, South - House No. 19 Rs. 24,96,049.00 Rs. 30,092.00 as on 19.11.2022 17.08.2023 Rs. 1,56,882.00 Rs. 27,88,375.52 as on 19.12.2022 + interest cother expenses 23.11.2022 17.08.2023 Rs. 1,56,882.00 Rs. 27,88,375.52 as on 19.12.2022 + interest cother expenses 23.11.2022 17.08.2023 Rs. 1,56,882.00 Rs. 27,88,375.52 as on 19.12.2022 + interest cother expenses 24.11.2022 - 17.08.2023 - 17.08.2021 - 17.08.2023 - 17.08.2023 - 17.08.2023 - 17.08.2023 - 17.08.202	Guarantors/Address	Mortgaged Properties	Date Demand notice
Ranjeet Singh, Ranjeet Singh (Co-Borrower) S/o Kuldeep Singh both R/o Teerth Colony Khodalpur, Tehsil Bisalpur, Near B.K. Complax, District Rampur U.P. 244921. Boundaries as Per Site: East - Road, West - Plot Of Tirath Singh, North - Plot Of Jagmeet Singh, South Road. Narendra Singh (Borrower) S/o Sh. Marendra Singh R/o-1. H.no. 717, Subhas Colony, Ward No. 14, Rudrapur, Udham Singh Nagar (UK) 263253, Tejinder Singh R/o H.no. 717, Subhas Colony, Ward No. 14, Rudrapur, Udham Singh Nagar (UK) 263153 Rampura, Rudrapur, Udham Singh Nagar (UK) 263153 Rampura, Rudrapur, Udham Singh Nagar (UK) 263253, Tejinder Singh (Co-Borrower)S/o Sh. Narendra Singh R/o H.no. 717, Subhas Colony, Ward No. 14, Rudrapur, Udham Singh Nagar (UK) 263153 Rampura, Rudrapur, Udham Singh Nagar (UK) 263253, Tejinder Singh R/o H.no. 717, Subhas Colony, Ward No. 14, Rudrapur, Udham Singh Nagar (UK) 263153 Rampura, Rudrapur, Udham Singh Nagar (UK) 263253, Tejinder Singh R/o H.no. 717, Subhas Colony, Ward No. 14, Rudrapur, Udham Singh Nagar (UK) 263153			
Mangal Singh R/o-1. H.no. 717, Subhas Colony, Ward No. 14, Rudrapur, Udham Singh Nagar (UK) 263153, R/o-2. Khet No. 53/3 Vill-Rampura, Rudrapur, Udham Singh Nagar (UK) 263253, Tejinder Singh (Co-Borrower)S/o Sh. Narendra Singh R/o H.no. 717, Subhas Colony, Ward No. 14, Rudrapur, Udham Singh Nagar (UK) 263153 Sq. mt situated at Khet No. 53/3 Vill-Rampura, Rudrapur, Udham Singh Nagar (UK) 263253 In The Name Of Narendra Singh. Bounded as: East - Remaining Part Of H.no. 18, West - 9.14mt Wide Rasta, North - House No. 17, South - House No. 19 Rs. 27,88,375.52 as on 19.12.2022 + interest & other expenses that the total structure of the part of H.no. 18, West - 9.14mt Wide Rasta, North - House No. 17, South - House No. 19	Ranjeet Singh, Ranjeet Singh (Co-Borrower) S/o Kuldeep Singh both R/o Teerth Colony Khodalpur, Tehsil Bisalpur, Near B.K. Complax, District Rampur	Situated At Residential House at Teerth Colony Khodalpur, Tehsil Bisalpur, Near B.k. Complax, District Rampur U.P. 244921. Boundaries as Per Site: East - Road, West - Plot Of Tirath Singh, North - Plot Of Jagmeet Singh, South -	Rs. 30,092.00 as on 19.11.2022 + interest & other expenses 23.11.2022
Date- 23.08.2023 Authorized Officer, Axis Bank Ltd.	Mangal Singh R/o-1. H.no. 717, Subhas Colony, Ward No. 14, Rudrapur, Udham Singh Nagar (UK) 263153, R/o-2. Khet No. 53/3 Vill-Rampura, Rudrapur, Udham Singh Nagar (UK) 263253, Tejinder Singh (Co- Borrower)S/o Sh. Narendra Singh R/o H.no. 717, Subhas Colony, Ward No. 14, Rudrapur, Udham Singh Nagar (UK) 263153	sq. mt situated at Khet No. 53/3 Vill-Rampura, Rudrapur, Udham Singh Nagar (UK) 263253 In The Name Of Narendra Singh. Bounded as: East - Remaining Part Of H.no. 18, West - 9.14mt Wide Rasta, North - House No. 17, South - House No. 19	Rs. 27,88,375.52 as on 19.12.2022 + interest & other expenses 19.12.2022 17.08.2023
	Date- 23.08.2023	Authorized O	fficer, Axis Bank Ltd.

CAPRI GLOBAL HOUSING FINANCE LIMITED

APRIGLOBAL Registered & Corporate Office: 502, Tower-A, Peninsula Business Park, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai- 400013, Circle Office: Capri Global Capital Limited 9B, 2nd Floor, HOUSING FINANCE LIMITED LOWER Parel, Multipal 100015, Pusa Road, New Delhi – 110060

APPENDIX IV POSSESSION NOTICE (for immovable property) Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of Capri Global Housing Finance Limited (CGHFL) under

the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002. Demand Notice(s) issued by the Authorised Officer of the company to the Borrower(s) / Guarantor(s) mentioned herein below to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower(s)/Guarantor(s) and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of the Section 13 of the said Act read with Rule 8 of the Security Interest Enforcement rules, 2002. The borrower's attention is invited to provisions of sub –section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeemthe secured assets The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of CGHFL for an amount as mentioned herein under with interest thereon.

Description of Secured Asset

(Immovable Property)

1.	LOAN ACCOUNT NO. LNHLNOI000081810 of our Noida Branch) Shivam S (Borrower) Mrs. Mohan Dei (Co-Borrower)	All Piece and Parcel of Flat no. S-2, Second floor, Front Right Hand Side, With Roof Rights, area admeasuring 55 Sq Mtrs., Plot No. D-974, Indraprasth Yojna, Loni, Ghaziabad, Uttar Pradesh	Rs.	19-08-2023
2.	(Loan Account No. LNHLMER000004254 of our Meerut Branch) Late Mohim Chandra Nath (Through his legal heirs) (Borrower) Mrs. Champa Rani Nath, Manoj Kumar Nath (Co-Borrower)	All that piece and parcel of Residential Plot area admeasuring 41.80 Sq. Mts., at Khasra No. 1163, Mehendi Mohalla Revenue Village, Naglatashi Kasampur, Kankar Khera, Paranga, Tehsil and District Meerut, Uttar Pradesh - 250001, Bounded As: East By — Plot of Smt. Santosh, West By — Plot of Smt. Babita, North By — House of Sh. Sanjay Sharma and Plot of Sh. Ravindra Jha, South By — 15 Ft., then 11 Ft. Wide Road	3,69,588/-	21-08-2023
P	lace: DELHI/NCR Date: 23-08-2023	Sd/- (Authorised Officer) For Capri Global Ho	using Finance Li	mited (CGHFL)

E-AUCTION SALE NOTICE

EDELWEISS ASSET RECONSTRUCTION COMPANY LIMITED

CIN: U67100MH2007PLC174759

Retail Central & Regd. Office: Edelweiss House, Off CST Road, Kalina, Mumbai 400098 E-AUCTION SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE SECURED ASSETS UNDER THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 READ WITH PROVISO TO RULE 8 (5) AND (6) READ WITH RULE 9(1) OF SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES 2002. The financial facilities of Piramal Capital & Housing Finance Limited. ("Assignor") has been assigned to Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited (hereinafter referred to as "EARC/Assignee") acting in its capacity as trustee of EARC-TRUST-SC- 477 mentioned clearly in column provided. Pursuant to the said assignment, EARC stepped into the shoes of the Assignor and exercises its rights as the secured creditor. That EARC, in its capacity as secured creditor, had taken possession of the below mentioned immovable secured assets under 13(4) of SARFAESI Act and Rules there under. Notice of 30 days is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower, Co-Borrower, Legal heirs and Guarantor (s) that the below described immovable secured assets mortgaged in favor of the Secured Creditor, the physical possession of which has been taken by the Authorized Officer (AO) of Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" basis, for recovery of the amounts men tioned herein below due to EARC together with further interest and other expenses/costs thereon deducted for any money received by EARC from Borrower and Guarantor. The Reserve Price and the Earnest Money Deposit are mentioned below for the property. It is hereby recalled/withdrawn any earlier Auction Notice from immediate effect and this notice shall be considered. **Details of Secured Asset put for Auction:**

> Total Earnest Money Date and Type of Name of Bank & Reserve Price **TRUST** Branch, Account Outstanding Due Deposit (EMD) Time of Possess (in INR) NAME Number & IFSC Code | As On 21.08.2023 in INR Auction EARC-TRUST-ICICI BANK LTD, 27.09.2023 Physical SC-477- Piramal NARIMAN POINT.

RAWAL & Capital & Housing 19000001024 ([000405135291) 8,75,000/-28,66,991.34/-AT 11:00 87,500/-**Finance Limited** BOBI IFSC ICIC0000004 ("Assignor") Property Description:- Details Of Mortgaged Property: All That Piece And Parcel Of Residential Flat No.-1106 (Ground Floor), Block-A, Sector-Mu LI, Situated In Greater Noida, Distt. Gautam Budh Nagar(U.P.). Having Area 40 Sq. Mtrs.

L	Important Information regarding Auction Process:				
1	1 All Demand Drafts (DD) shall be drawn in favor of Trust name as mentioned above and payable at Mumbai.				
2	Last Date of Submission of EMD	Received 1 day prior to the date of auction*			
3	Place for Submission of Bids	At Retail Central Office, Mumbai (mentioned below)			
4	Place of Auction (Web Site for Auction)	E-Auction (https://auction.edelweissarc.in)			
5	Contact No.	18002666540			
_	Date & Time of Inspection of the Property				
F	For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in EARC's website i.e., https://auction.edelweissarc.in				

Sd/- Authorized Officer For Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited (Trustee for EARC-TRUST-SC-477)

* Edelweiss

✓ YES BANK

Registered and Corporate Office: YES BANK House, Off Western Express Highway, Santacruz East, Mumbai - 400055 India. Website: www.yesbank.in Email: comminications@yesbank.in CIN: L65190MH2003PLC143249 Regional Office At: 5th Floor, Max Tower, Sector 16B, Noida, U.P.- 201301

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY

Pre Sale Notice of 15 days for sale of Immovable Secured Asset under Rule 8(5) read with Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

The below mentioned immovable property is mortgaged in favour of Yes Bank Ltd. to secure the credit facilities availed by M/s. Knitmac India Ltd. through its Partner ("Borrower"). As You have neglected the demand notice u/s 13(2) of the SARFAESI ACT dated March March 25, 2022 and failed to pay the Outstanding dues mentioned therein, we have taken the physical possession of the immovable property mentioned below on 14-09-2022. We also here by inform you that we shall sell the below mentioned immovable property Through E-Auction on 11-09-2023. The detail of E-Auction viz, Property particulars, Reserve Price and Earnest Money Deposit (EMD) are as under: Name of Borrower/Mortgagaor/ Schedule of Amount Reserve

Guarantors / Partner and address	Property	& Date	Price	
1. M/s. Knitmac India Ltd. through its Directors Address – B-13, A-2, First Floor, Asha Park, New Delhi – 110018. Also At: J-3/79B, Rajouri Garden New Delhi, 110027. ("Borrower") 2. Mr. Manish, Director, M/s. Knitmac India Ltd. Address – Plot No. 106, 3rd Floor, Block D, Sector - 8, Dwarka, Delhi - 110075. Also At: B-13, A-2, First Floor, Asha Park, New Delhi – 110018. ("Guarantor") 3. Mrs. Anita, Director, M/s. Knitmac India Ltd. Address – Plot No. 106, 3rd Floor, Block D, Sector - 8, Dwarka, Delhi - 110075. Also At: A-128, 2nd Floor, Sector-19, Dwarka, New Delhi – 110075. Also At: B-13, A-2, First Floor, Asha Park, New Delhi – 110018. Also At: Flat No. 30, Block – B-1, 2nd Floor, Sushant Lok Phase – 3, Gurgaon – 122011. ("Mortgagor, & Guarantor") 4. Mr. Tula Bosak, Director, M/s. Knitmac India Ltd. Address – RZ C-37, Nihal Vihar, Nangloi, Nilothi, West Delhi, Delhi - 110041. Also At: B-13, A-2, First Floor, Asha Park, New Delhi – 110018. ("Guarantor")	Entire Third Floor Without Roof Rights of Free Hold Built Up Property Bearing No. 106, Block – D. Area Measuring – 175 Sq. Mtrs., Sector – 8. Dwarka Residential Scheme, Dwarka, New Delhi.	Rs. 2,78,17,595/- (Rupees Two Crore Seventy Eight Lakh Seventeen Thousand Five Hundred and Ninty Five Only) due as on July 31, 2023	Rs. 99,00,000/- (Rupees Ninety-Nine Lakh Only)	Rs. 9,90,000/ (Rupees Nine Lakt Ninety Thousand Only)

Rs. 2,78,17,595/- (Rupees Two Crore Seventy Eight Lakh Seventeen Thousand Five Hundred and Ninty Five Only) due as on July 31, 2023 together with subsequent interest and other charges there upon, within 15 Days of receipt of this notice as per the provisions under the Rule 8(5) read with Rule 8(6) or the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. If the Borrower/Guarantoils) Security Provider(s). & Legal Heirs fails to repay the debts, the properties mentioned herein above will be sold on " AS IS WHERE IS BASIS" 'AS IS WHAT IS BASIS. "WHATEVER THERE IS BASIS" and No RECOURSE BASIS" (including encumbrances, if any), through E-Auction as mentioned above. Other information: The information about litigation/cases is as follows: O.A. No. 801/2022 against the borrowers is currently pending before the Hon'ble Debt Recovery Tribunal-2, Delhi.

FIR No. 0185/2022 was lodged with the Economic Offences Wing, Delhi, against the borrowers on grounds of suspicions of fraudulent activities related to multi-mortgaging of collateral. The investigation into the matter is still

CC No. 8080/2022 under section 138 NI Act pending at Patiala House Courts, New Delhi Date: 23/08/2023 Place: Noida

Sd/- Authorized Officer, For Yes Bank Ltd

Uno Minda Limited (Formerly known as Minda Industries Ltd.)

(CIN: L74899DL1992PLC050333)

Registered Office: B-64/1, Wazirpur Industrial Area, Delhi-110052

Corp. Office: Village Nawada Fatehpur, P.O. Sikandarpur Badda, Near IMT Manesar, Gurgaon (Haryana) - 122004, Website: www.unominda.com, E-mail: investor@unominda.com Tel.: +91 11 4937 3931, +91 124 2290 427 Fax: +91 124 2290676

INFORMATION REGARDING 31" ANNUAL GENERAL MEETING ('AGM') OF UNO MINDA LIMITED (FORMERLY KNOWN AS MINDA INDUSTRIES LIMITED)

- The 31[®] Annual General Meeting of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") on Wednesday, September 20, 2023 at 10:30 A.M. (IST), in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, General Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021, General Circular 2/2022 dated May 5, 2022, General Circular 10/2022 dated December 28, 2022, General Circular 10/2022 dated December 28, 2022 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI (collectively referred to as "relevant circulars"), to transact the businesses set out in the Notice calling the AGM. Members will be able to attend the AGM through VC / OAVM or view the live webcast at https://www.evoting.nsdl.com. Members participating through the VC / OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act. 2013.
- In compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM and the Standalone and Consolidated Financial Statements along with the Board's Report and the Auditors' Report for the financial year 2022-23, will be sent to all the Members of the Company whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s). The aforesaid documents will also be available on the Company's website at https://www.unominda.com/ , website of National Securities Depository Limited (NSDL) at https://www.evoting.nsdl.com and on the website of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively.

Manner of registering / updating email addresses:

Members holding shares in physical mode and who have not updated their email addresses with the Company are requested to update their email addresses by writing to the Company along with the copy of the signed request letter mentioning the Folio Number, name and address of the Member, scan copy of share certificate (front and back), selfattested copy of the PAN card, and any document (eg.: Aadhaar Card, Driving License, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the Member. In case Members holding shares in dematerialised mode are requested to temporary update their email addresses by

CLID or 16 digit beneficiary ID) name, client master or copy of Consolidated Account Statement, self-attested copy of the PAN card, and of any document (eg.: Aadhaar Card, Driving License, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the Member. The said request by the Members shall be sent to the Company at investor@unominda.com on or before August 25,

writing to the Company along with the copy of the signed request letter mentioning the DPID-CLID (16 digit DPID+

2023. In case of any queries / difficulties in registering the e-mail address, Members may write to investor@unominda.com.

The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means is 13 September, 2023; The remote e-voting shall commence on Friday, 15 September, 2023 (9:00 a.m. IST);

ii. The remote e-voting shall end on Tuesday, 19 September, 2023 (5:00 p.m. IST); PROCEDURE FOR JOINING THE AGM THROUGH VC / OAVM:

 Members will be provided with a facility to attend the AGM through VC / OAVM through the NSDL e-Voting system. Members may access the same at https://www.evoting.nsdl.com under Members login by using the e-voting credentials. After successful login, Member can see link of "VC/OAVM link" placed under "Join General Meeting" menu against Company name. Members are requested to click on VC/OAVM link placed under Join General Meeting menu. The link for VC/OAVM will be available in Shareholder/Member login where the EVEN of Company will be displayed. Please note that the Members who do not have the User ID and Password for e-voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the e-voting instructions mentioned in the Notice of AGM.

ii) The Members can join the AGM in the VC/OAVM mode 30 minutes before and after the scheduled time of the

commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The facility of participation at the AGM through VC/OAVM will be made available for 1000 members on first come first served basis. This will not include large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc. who are allowed to attend the AGM without restriction on account of first come first served basis. The Board of Directors of the Company at their meeting held on May 18, 2023 recommended payment of dividend of Rs

1/- per Equity Share of face value Rs. 2/- each for the financial year ended March 31, 2023, subject to approval of Members at the AGM. The dividend, if approved by the Members, will be paid to Members holding Equity Shares of the Company as on the record date i.e., August 31, 2023 for determining eligibility of Members to receive the dividend. Payment of dividend to those Members who have registered their Bank accounts with their respective DP or with the Company will be made directly online in the said bank account. For other Members 'payable-at-par' warrants or cheques will be issued for the payment of dividend. For dividend in future, Members holding Equity Shares of the Company in demat form and who have not

details. The Members holding Equity Shares of the Company in physical form and who have not registered their Bank details may register their Bank details with the Link Intime India Private Limited by clicking the link: https://linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html and following the registration process as guided therein. Further, Members are requested to update their valid PAN with their respective DP (in case shares are held in dematerialized form) and the Company (in case shares are held in physical form). In terms of the provisions of the Income Tax Act, 1961, ('IT Act'), dividend income will be taxable in the hands of the Members and the Company is required to deduct tax at source at the prescribed rate from the dividend paid. For the

prescribed rates, the deduction of tax at source will be based on the residential status and classification of Members,

registered/updated their Bank details are requested to approach their respective DP to register their Bank account

documents submitted and accepted by the Company. The detailed communication to the members were already sent to those members whose e-mail ids are registered with the Company and Depository and the same has also been disclosed at the website of the Stock Exchanges: BSE https://www.bseindia.com/xml-data/corpfiling/AttachLive/e2d6e725-7da6-4e27-bae3-13357496e2da.pdf

NSE https://archives.nseindia.com/corporate/UNOMINDA 21082023182228 communication to shareholders WHT docs.pdf

Members who need assistance before or during the AGM with use of technology, can send a request at evoting@nsdl.co.in or use Toll free no.: 1800-1020-990 and 1800-224-430.

3. Institutional Members are encouraged to attend and vote at the AGM through VC / OAVM. In case any Institutional Members, facing issues for participating in AGM can write to investor@unominda.com and evoting@nsdl.co.in

It is recommended to use stable Wi-Fi or LAN connection to mitigate any kind of connectivity glitches. Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for

joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or e-voting during the AGM. By Order of the Board For Uno Minda Limited (formerly known as Minda Industries Limited)

Place: Gurugram, Haryana Date: August 22, 2023

Tarun Kumar Srivastava Company Secretary & Compliance Officer

"IMPORTANT" Whilst care is taken prior to acceptance of advertising

copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

New Delhi

financialexp.epag

Place: Ghaziabad (U.P.)

पंगासस एसट्स ारकस्ट्रक्शन प्राइवट ालामटड 55—56,5वीं मंजिल फ्री प्रेस हाउस नरीमन प्वाइंट, मुंबई-400021 टेलीफोनः -022-61884700 ईमेलः sys@pegasus-arc.com यूआरएलः www.pegasus-arc.com

को सौंपी गई अचल संपत्तियों की बिक्री पेगासस एसेटस रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (पेगासस) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने पेगासस ग्रुप थर्टी—नाइन ट्रस्ट–2 के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में सरफेसी अधिनियम के प्रावधान के तहत धारा 14 के तहत अनुसुची संपत्ति का कब्जा ले लिया है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए नीचे दी गई बंधक संपत्ति को 12.09.2023 को सभी ज्ञात और अज्ञात देनदारियों के साथ "जैसा है जहां है", "जैसा है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर निजी संधि के माध्यम मेसर्स एम्ब्रोसिया अपैरल्स, गारंटर / सह-उधारकर्ता- श्रीमती प्रतिभा डिमरी (मालिक एवं सह—उधारकर्ता). श्री चंद्र मोहन डिमरी (सह—उधारकर्ता) से पेगासस एसेटस रिकस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के 11/08/2023 के अनुसार मेसर्स एम्ब्रोसिया अपैरल्स से बकायो रु. 47.14.263.85 / – (रुपये सैंतालीस लाख चौदह हजार दो सौ तिरसठ और पचासी पैसे मात्र) प्लस 12 / 08 / 2023 से प्रभावी ब्याज एवं लागत, शुल्क और उस पर खर्च की वसूली के लिए से विक्रय किया

निजी सिंधे के माध्यम से बिक्री की सूचना वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रितभूति हित प्रवर्तन

अधिनियम 2002 (सरफेसी अधिनियम) के तहत पेगासस एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड

जाएगा। आरक्षित मुल्य रुपये 39,61,000 / – (केवल उन्तालीस लाख इकसठ हजार रुपये) होगा और बयाना राशि रुपये ३,९६,१०० / – (तीन लाख छियानवे हजार एक सौ रूपये मात्र) होगी। व्यापक पैमाने पर आम जनता को सूचित किया जाता है कि अनुसूची में उल्लिखित सुरक्षित संपत्ति पेगासस

िनजी संधि के माध्यम से बिक्री "जैसा है जहां है के आधार पर" और "जैसा है जो है के आधार पर" और "जो कछ भी है" के आधार पर होगी।

अनसार जमा राशि के 25% के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा

क्रेता को संपत्ति की खरीद के प्रस्ताव की पेगासस स्वीकृति की प्राप्ति के अगले कार्य दिवस पर बिक्री प्रतिफल का 25% और उसके बाद 15 दिनों के भीतर शेष राशि जमा करनी होगी। (पेगासस अपने विवेक से 15 दिन का समय बढ़ा सकता है और किसी भी स्थिति में यह तीन महीने से अधिक नहीं होगा।) उपरोक्त खंड (3) के तहत आवश्यक राशि का भूगतान करने में विफल रहने पर आवेदन के साथ भूगतान

राशि बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी।

संपत्ति सभी मौजूदा और भविष्य के भार, चाहे पेगासस को ज्ञात हो या अज्ञात, के साथ बेची जा रही है। प्राधिकत अधिकारी / सरक्षित ऋणदाता किसी भी तीसरे पक्ष के दावों / अधिकारों / बकाया के लिए किसी भी

बोलियां ऑफ़लाइन/आवेदन के माध्यम से हमारे कॉर्पोरेट कार्यालय पते : पेगासस एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड 55–56, 5वीं मंजिल, फ्री प्रेस हाउस, नरीमन प्वाइंट, मंबई 400021 पर जमा की जाएंगी। बोलियां 11.09.2023 को शाम 4.00.00 बजे तक या उससे पहले जमा की जानी चाहिए। ईमेल पता nitin@pegasus-arc.com / surender@pegasus-arc.com पर बोली लगाने वाले को उपरोक्त के

पेगासस के बकायों की पूरी राशि का भुगतान करते हैं, तो कोई बिक्री नहीं की जाएगी।

इच्छुक बोलीदाताओं को उपरोक्त ईएमडी को "पेगासस ग्रुप थर्टी नाइन ट्रस्ट 2" के पक्ष में मुंबई में देय डिमांड डाफ्ट / पे ऑर्डर या खाता संख्या ४०९८१९११६६५, खाते का नामः –पेगासस ग्रूप थर्टी नाइन ट्रस्ट 2, बैंक का नामः आरबीएल बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालयः भृतल, मित्तल कोर्ट, 224 नरीमन प्वाइंट, मुंबई-400021, एमआईसीआर कोड: 400176023, आईएफएससी कोड: RATN0000155 के खाते में एनईएफटी / फंड ट्रांसफर / आरटीजीएस द्वारा ईएमडी के माध्यम से ऊपर उल्लिखित तिथि और समय

पर उचित परिश्रम करना चाहिए। क्रेता इस संबंध में बाद की तारीख में प्राधिकृत अधिकारी / सरक्षित ऋणदाता के विरुद्ध कोई दावा करने का हकदार नहीं होगा।

संबंध में अधिकृत अधिकारी / सुरक्षित लेनदार के खिलाफ कोई दावा करने का हकदार नहीं होगा। 2. पेगासस बिना कोई कारण बताए खरीद के किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित

बोली प्रस्तुत करता है, तो पेगासस इच्छुक पार्टियों के बीच एक पारस्परिक बोली आयोजित करेगा और और बिक्री उच्चतम बोली लगाने वाले के पक्ष में कर दी जाएगी।

।. क्रेता को संपत्ति की खरीद के संबंध में सभी स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क और अन्य खर्च, कर, शुल्क

संपर्क कर सकती हैं। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया सुरक्षित लेनदारों की वेबसाइट यानी "www.pegasus-arc.com" पर दिए गए लिंक को देखें और आप श्री नितिन कश्यप-8447636680 श्री सुरेंद्र सिंह-8947960010 से संपर्क कर सकते हैं।

'एमआईजी फ्लैट नं. एफ–1, पहली मंजिल (बिना छत के अधिकार के), प्लॉट नं. 9 ⁄ 68, जज कॉलोनी.

आरक्षित मूल्य (रुपये) (जिसके नीचे रु. 39,61,000 / – (रुपए उन्तालीस लाख इकसठ हजार मात्र) (तीन लाख छियानवे हजार एक सौ रुपये मात्र)

दिनांकः 22/08/2023 स्थानः गाजियाबाद (यू.पी.) (पेगासस ग्रुप थर्टी-नाइन ट्रस्ट 2 के लिए ट्रस्टी)

जनसता

कॉर्पोरेट पहचान संख्याः L74110DL1991PLC046120 पंजीकृत कार्यालयः क्रमांक 4873/5 एसएफ फाटक नमक हौज काजी दिल्ली सेंट्रल दिल्ली डीएल 110006, भारत, टेलीफोन नं. 011-23234316,

एतद्दवारा नोटिस दिया जाता है कि साइजमास्टर्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड (पूर्व में मेवात जिंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के सदस्यों की 30वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम), वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो विजुअल साधन ("ओएवीएम") के माध्यम से गुरुवार, 21 सितंबर, 2023 को अपराह्न 03.00 बजे (आईएसटी) ,एजीएम के नोटिस में निर्धारित किए साधारण कार्यवाही को करने के लिए आयोजित होने वाली है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और भारतीय प्रतिभति विनिमय बोर्ड (सेबी) (सामहिक रूप से "प्रासंगिक परिपत्र" के रूप में जाना जाता है) द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों के अनुपालन में, प्रासंगिक परिपत्रों के अनुसार, कंपनी ने

बैठक की सुचना, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट और उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में दूरस्थ ई–वोटिंग विवरण भेज दिया है, जिनकी ई–मेल आईडी कंपनी/ आरटीए/डिपॉजिटरी) के साथ पंजीकृत हैं। शेयरधारकों को नोटिस के ईमेल के पूरा होने की तारीख 21 अगस्त, 2023 है।

यदि आपने कंपनी / डिपॉजिटरी के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, तो कृपया वित्त वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने और ई—वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण प्राप्त करने के लिए अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत करने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें।

भौतिक रूप में धारिता : कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंटों को अपना फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई कॉपी (सामने और ईमेल पते को पंजीकृत करने के लिए वापस), पैन (पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की गई प्रति) प्रदान करते हुए निविस कॉर्पसर्व एलएलपी को info@nivis.co.in पर अनुरोध भेजें या 011-45201005 पर संपर्क करें। डीमैट रूप में धारिताः कृपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) से संपर्क करें और डीपी द्वारा सलाह दी गई

ये दस्तावेज सदस्यों द्वारा डाउनलोड करने के लिए कंपनी की वेबसाइट www.mewatzinc.com पर भी उपलब्ध हैं। संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों तथा सेबी (सचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमों . 2015 के विनियम 44 के अनुपालन में नोटिस दिया जाता है कि कंपनी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डालने में सक्षम बनाने के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा अपने पोर्टल

www.nsdl.co.in के माध्यम से सभी व्यवसाय करने के लिए ई-वोटिंग सुविधा की पेशकश की गई है। रिमोट ई—वोटिंग की अवधि रविवार, 17 सितंबर, 2023, सुबह 09:00 बजे (भा मा स) से शुरू होगी और बुधवार, 20 sizemasterscompliance@gmail.com पर भेजा जा सकता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 42 के अनुसार यह नोटिस भी दिया जाता है कि सदस्यों का रजिस्टर वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों का रिकॉर्ड लेने के उद्देश्य से कंपनी की शेयर ट्रांसफर पुस्तकें शुक्रवार, 15 सितंबर, 2023 से गुरुवार, 21 सितंबर, 2023 (दोनों दिन सम्मिलित) तक

> (पूर्व में मेवात जिंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) हस्ता /- गोपाल जंवर प्रबंध निदेशक डीआईएनः 09537969

प्रपत्र सं. आईएनसी-26

[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में] एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए विज्ञापन

केन्द्र सरकार उत्तरी क्षेत्र बी-2 विंग, 2रा तल, पं. दीन दयाल अन्त्योदय भवन,

सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन)

नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में

बिल्लिस टावर्स वाटसन इन्डिया इन्स्युरैन्स ब्रॉकर्स प्राइवेट लिमिटेड जिसके पंजीकृत कार्यालय : भूतल एवं प्रथम तल, वर्ल्ड मार्क 1, एसेट एरिया 11, एयरोसिटी हॉस्पिटैलिटी डिस्ट्रिक्ट, इन्दिरा गांधी इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली-110037 में है, के मामले में

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि ''रा. रा. क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली'' से ''हरियाणा राज्य'' उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए गुरुवार 27 जुलाई, 2023 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पृष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह आवेदक कंपनी केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-

21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र बी-2 विंग, 2रा तल, पं. दीन दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 र जमा करें या जमा कराएं या पंजीकत डाक से भेजें:

भूतल एवं प्रथम तल, वर्ल्ड मार्क 1, एसेट एरिया 11, एयरोसिटी हॉस्पिटैलिटी डिस्ट्रिक्ट, इन्दिरा गांधी इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली, नई दिल्ली-110037

बिल्लिस टावर्स वाटसन इंडिया इन्स्युरैन्स ब्रॉकर्स प्राइवेट लिमिटेड

तिथि: 23.08.2023

स्थानः नई दिल्ली

(आईआईएफएल-एचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पूनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त-अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों वे प्रयोगांतर्गत, कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यहां इसमें निम्न वर्णित उधारकर्ता/ सह–उधारकर्ताओं को सूचना में वर्णित राशि के प्रतिभुगता हेतु, एक मांग सूचना निर्गत की थी। उधारकर्ता को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का उक्त नियमावली की धारा 13(4) के अंतर्गत उनको प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत कब्जा ग्रहण कर लिया है। उधारकर्ता को विशे रूप में तथा जनसाधारण को एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार क लेन–देन जो होगा, वह यहां इसमें निम्न वर्णितानुसार एक राशि तथा इस राशि पर ब्याज हेत् आईआईएफएल एचएफएल के प्रभाराधीन होगा। उधारकर्ता का ध्यानाकर्षण उस स्थिति में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है, यदि उधारकत विक्रय अथवा हस्तांतरण हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व, किसी भी समय समस्त लागतों, प्रभारों एवं उपगत व्ययों के साथ "आईआईएफएल-एचएफएल को देय धनराषियों का पूर्ण भुगतान कर देता है, तो ऐसी स्थिति में ''आईआईएफएल–एचएफएल'' द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विक्रय अथवा हस्तांतरण नहीं किया जाएगा और ''आईआईएफएल–एचएफएल'' द्वारा प्रतिभृत परिसम्पत्तियों के हस्तांतरण व विक्रयार्थ कोई भावी कदम नर्ह

ı	सह—उधारकर्ताओं	(अचल सम्पत्ति) का विवरण	देयराशि (रु.)	सूचना	की तिथि
ı	के नाम, दिल्ली शाखा	निम्न का वह सभी टुकड़ा और अंश : मकान नं. 1,		की तिथि	
ı	श्री अजय राणा, मैसर्स अजय	पीछे का हिस्सा, खसरा नंबर 193/1, क्षेत्रफल 3600	(रुपए बावन लाख	09—जून,	18—अगस्त—23
ı	राणा, श्रीमती मनीषा राणा और	वर्ग फुट , कारपेट एरिया 537 वर्ग फुट , निर्मित क्षेत्र	उनचास हजार	2023	
ı	श्रीमती राज रति	672 वर्ग फुट, ग्राम बुधपुर, अलीपुर, उत्तर पश्चिम			
ı	(प्रॉस्पेक्ट नं. 966325)	दिल्ली, 110036, दिल्ली, भारत			
ı	अन्य विवरणों के लिए कृपया श	खा कार्यालय में प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें: प्लॉट	नंबर 30 / 30ई, ऊपरी भूतल , मु	ख्य शिवाजी	मार्ग, नजफगढ़
ı		में, मोती नगर, नई दिल्ली/अथवा निगमित कार्यालयः भू			
ı	स्थान : दिल्ली				कृत अधिकारी,
ı	दिनांकः 23/08/2023		कृते आईआईएफ	एल होम फ	इनेंस लिमिटेड

अमर वाणिज्य लिमिटेड कॉर्पोरेट पहचान संख्याः L74900DL1985PLC020118.

पंजीकृत कार्यालय–105, साउथेक्स प्लाजा–II, लीला राम मार्केट, साउथ एक्सटेंशन—II, नई दिल्ली— 110049 फ़ोनः +(011)41042727 ई-मेलः amar.vanijya@rediffmail.com वेबसाइटः www.amarvanijya.com

एतदद्वारा सचना दी जाती है कि अमर वाणिज्य लिमिटेड के सदस्यों की 32वीं वार्षिव

आम बैठक शुक्रवार, 15 सितंबर, 2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे, कंपनी के पंजीकृत कार्याल

105, साउथेक्स प्लाजा–II, लीला राम मार्केट, साउथ एक्सटेंशन–II, नई दिल्ली–11004

में दिनांक 9 अगस्त, 2023 की बैठक की सूचना में निर्धारित अनुसार कार्यवाही निष्पादित करने हेतू आयोजित की जाएगी। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम, 2014 के नियम 20, यथा संशोधित के अनुसार, और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व औ प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के नियम 44, यथासंशोधित के अनुसार, कंपन अपने सदस्यों को नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर इलेक्टॉनिक माध्यम (रिमोर् ई-वोटिंग) द्वारा वोट डालने की सविधा प्रदान करने में प्रसन्न है। रिमोट ई-वोटिंग क अवधि 12 सितंबर, 2023 को सूबह 9:00 बजे शुरू होती है और 14 सितंबर, 2023 को शा 5:00 बजे समाप्त होती है। उक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमर्ग नहीं दी जाएगी। किसी सदस्य को मतदान का अधिकार 08.09.2023 (कट-ऑफ तिथि) व अनुसार कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होगा। एक व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि पर कंपनी के सदस्य के रजिस्टर में य डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिक के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वही एजीए में वोटिंग के साथ-साथ रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा जिस व्यक्ति ने एजीएम की सूचना भेजने के बाद शेयर हासिल कर लिए हैं और कंपन के सदस्य बन गए हैं और कट—ऑफ तारीख यानी 08.09.2023 को शेयर धारण कर र हैं. वे amar.vanijva@rediffmail.com पर अनरोध भेजकर रिमोट ई-वोटिंग के लि युजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। एजीएम में मतदान या मतपत्र द्वारा मतदा की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्य से अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में अपने वोट देने के अधिकार का प्रयोग क सकेंगे। कोई सदस्य ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग कर के बाद भी एजीएम में भाग ले सकता है, लेकिन उसे एजीएम में दोबारा मतदान कर की अनुमति नहीं दी जाएगी। ई-वोटिंग की प्रक्रिया के साथ, वार्षिक आम बैठक की सूचन कंपनी की वेबसाइट www.amarvanijya.com और एजेंसी की वेबसाइव

www.evoting.nsdl.com पर प्रदर्शित की जाती है। कंपनी के सदस्य, ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न/शिकायत के लिए www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ("एफएक्यू")औ ई-वोटिंग मैनुअल देख सकते हैं या निम्नलिखित टोल फ्री नंबर :1800-222-990 प एनएसडीएल से संपर्क कर सकते हैं।

आप सुश्री पुनम कुमारी शर्मा, कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी, अमर वाणिज लिमिटेड, 105, साउथेक्स प्लाजा—II, लीला राम मार्केट, साउथ एक्सटेंशन— II, न दिल्ली-110 049, ई-मेलः amar.vanijya@rediffmail.com; फ़ोनः +(011)4104272 से भी संपर्क कर सकते हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 42 के संदर्भ में नोटिस दिया गया है कि कंपर्न के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स , शुक्रवार, 15 सितंबर, 2023 को हो वाली कंपनी की 32वीं वार्षिक आम बैठक के प्रयोजन के लिए शनिवार 9 सितंबर, 202 से शुक्रवार, 15 सितंबर, 2023 (दोनों दिन सम्मिलित) से बंद रहेंगी।

निदेशक मंडल के आदेशानुसा कृते अमर वाणिज्य लिमिटेड हस्ता /-

पुनम कुमारी शम

स्थानः दिल्ली दिनांकः 22.08.2023

CIN: L22022UP1982PLC005759

PRABHAT SECURITIES LIMITED R/O: '118/610 A, Kaushalpuri-208012, Ph: 512-2526347, E Mail: prabhatsecurities@gmail.com, Website: www.prabhatsecuritiesItd.com

NOTICE NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 41" Annual General Meeting (AGM) of the Company will be

held physically on Friday, the 15th September,

2023 at 01.30 p.m. (IST), at the Registered Office of

the Company at 118/610A, Kaushalpuri, Kanpur-

208012 (U.P.) to transact the business set out in the notice dated 17.08.2023. Electronic copy of Notice of the 41" AGM including Instructions for e-voting, Attendance Slip, Proxy Form and Annual Report of the Company for the financial year 2022-2023 have been sent to all the members whose email IDs are registered With the Company/Depository Participant(s). Physical copies of such documents have been sent to all other members at their registered addresses by permitted mode. The aforesaid documents will also be available on the company's website https://www.prabhatsecuritiesltd.co.in. website of the stock exchanges, i.e. Metropolitan Stock Exchange of India Limited (MSEI) and Calcutta stock Exchange (CSE) at www.msei.in and

www.cse-india.com respectively. Pursuant to provisions of section 91 of the Companies Act, 2013 read with rule 10 of The Companies (Management and Administration) Rules 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligation and Discloser Requirements) Regulations 2015, the Register of Members and Share Transfer Register of the Company shall remain closed from 9th September, 2023 to 15" September, 2023 (both days inclusive) for the

Pursuant to provisions of Section 108 of Companies Act 2013 read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014, as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligation and Discloser Requirements) Regulations 2015, Company is pleased to provide its members the electronic facility (remote e-voting) to transact all the business mentioned in the notice through Central Depository Services (India) Limited (CDSL) All the members are informed that:-

(a) The Notice has been dispatched/emailed to all the members and the process has been completed

purpose of AGM

(b) The cut-off date for determining the eligibility of the members to vote by remote e voting or voting at the AGM is 8th September 2023. (c) The remote E-voting shall commence on September 12°, 2023 at 09:00 a.m. IST and end on September 14", 2023 at 05:00 p.m. IST. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date (d) Members who have cast their vote by remote evoting prior to the AGM may attend the meeting but

by Tuesday, 22" August, 2023

shall not be entitled to cast their vote once again at (e) The facility of voting through electronic voting ballot paper, shall also be made available at the AGM for members who have not already cast their vote prior to the meeting by remote e-voting. The documents pertaining to the items of business to be transacted in the AGM are open for inspection at the Registered Office of the Company between 11.00

AM. to 3.00 P.M. on all working days upto the date of

AGM and also at the venue of the AGM. (f) The voting rights of the members shall be in proportion to their share in the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e. 8" September, 2023. A person whose name is recorded in the Register of Members / BenefiCial owners as on the cut-off date i.e 8" September, 2023 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting Dr voting at the AGM (g) A person, who has acquired shares and become member of the Company after the email sending date i.e 22" August, 2023 and holding shares on cut off date i.e. 8" September 2023, may

obtain the procedure to login by sending request a helpdesk.evoting@cdslindia.com. However if the person is already registered with CDSL for e voting than he can use his existing login ID/user ID and password for casting the vote through e voting.
(h) Members holding shares in Physical Mode who have not registered/updated their email addresses with the company, are requested to visit the website of the company's Registrar at www.mdlpdc.com click on email registration and upload required documents therein.

(i) Members holding shares in dematerialised mode, who have not registered/updated their email addresses, are requested to register/update their email addresses with depository participants with whom they maintain their demat accounts. (i) The Notice of AGM is available on the Company's website https://www.prabhatsecuritiesltd.co.in ,and on CDSL website http://www.evoting.india.com/; (k) The procedure of electronic voting is available

in the Notice of the 41" Annual General Meeting as well as in the email sent to the Members and on CDSL website http://www.evoting.india.com/. In case of any queries pertaining to e-voting, member can e-mail to helpdesk.evoting@ and/or prabhatsecurities@gmail.com; (I) Members are requested to carefully read all the notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instruction for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or through

e-voting during the AGM. (m) The Company has appointed Mr. Vaibhav Agnihotri, Practising Company Secretary as the scrutinizer to scrutinize the voting and remote evoting process in a fair and transparent manner. Members who are holding shares in physical form or who have not registered their email addresses with the Company can cast their vote through remote e-voting or through the e-voting system during the meeting in the manner as provided in the

notice of AGM. In case of any queries/grievances, Members can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call toll free no. 1800 22 55 33. The above information is being issued for the information and benefit of all the members of the Company and is in compliance with the MCA

Circulars and the SEBI Circulars issued from time For Prabhat Securities Limited Place: Kanpur sd/- Ramakant Kushwaha

Date: 23.08.2023 (Managing Director)

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising

copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी

सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के लिए

[सीएफएमएआरसी ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत]

साइजमास्टर्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड (पूर्व में मेवात जिंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) र्इमेल आईडीः sizemasterscompliance@gmail.com, वेबसाइटः www.mewatzinc.com

30वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, बुक क्लोजर और रिमोट ई—वोटिंग सूचना

प्रक्रिया के अनुसार अपना ईमेल पता पंजीकृत करें।

सितंबर, 2023, शाम 05:00 बजे (भा मा स) समाप्त होगा। उक्त तिथि और समय के बाद किसी भी ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस अवधि के दौरान कंपनी के सदस्य, जिनके पास 15 सितंबर, 2023 की कट-ऑफ तारीख तक शेयर भौतिक रूप में या डीमटेरियलाइज्ड रूप में हैं, वे रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, जो शेयर प्राप्त करता है और नोटिस भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट ऑफ तिथि यानी 15 सितंबर 2023 तक शेयर रखता है वह evoting@nsdl.co.in:k आरटीए निविस कॉर्पसर्व एलएलपी info@nivis.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालाँकि, यदि सदस्य रिमोट ई–वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं तो वे अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद एनएसडीएल द्वारा वोटिंग के लिए रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डाल दिए जाने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान करने की सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी और जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे। रिमोट ई–वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना के साथ भेजे गए पत्र में शामिल है। ई—वोटिंग से संबंधित कोई भी प्रश्न/शिकायत साइजमास्टर्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड (पूर्व में मेवात जिंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) की कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी सुश्री ऐश्वर्या परवाल को ईमेल:

कृते साइजमास्टर्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: ब्लॉक नं. ए/1003, वेस्ट गेट, वाईएमसीए क्लब के पास, सर्वे नंबर 835/1+3, एस.जी. हाईवे, मकरबा, अहमदाबाद -380051, गुजरात

कब्जा सूचना

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) के तहत और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के [नियम 3] के साथ पठित धारा 13(12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (असाइनी – सीएफएमआरसी ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत) के अधिकृत प्राधिकारी ने कर्जदार/सह–कर्जदारों और गारंटरों से उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर मांग नोटिस की तारीख से भृगतान/वसूली तक अतिरिक्त ब्याज और अन्य शुल्कों के साथ नीचे संलग्न मांग नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाने का आह्वान करते हुए उक्त अधिनियम के तहत एक मांग नोटिस जारी किया। इसके बाद, सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (असाइनी – सीएफएमआरसी ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत) ने सरफैसी अधिनयम, 2002 के प्रावधानों के तहत एलएंडटी फाइनेंस लिमिटेड

(असाइनर) से ऋण के असाइनमेंट डीड के माध्यम से सभी अंतर्निहित प्रतिभृतियों के साथ-साथ संपूर्ण बकाया राशि का अधिग्रहण कर लिया और प्रतिभत ऋणदाता के स्थान पर आ गया तथा प्रतिभितयों के प्रवर्तन द्वारा बकाया राशि वसुलने का हकदार बन गया। कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर राशि चकाने में विफल रहे हैं, इसलिए कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इस नोटिस पर उक्त नियमों के नियम 8

के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। प्रतिभूत आस्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में कर्जदार/सह–कर्जदारों/गारंटरों का ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा 8 के प्रावधानों की ओर

आकर्षित किया जाता है।

क्र	and the many the analytical and	बंधक सम्पत्तियों का विवरण		मांग सूचना	कब्जे की
सं	के नाम तथा गारंटरों के नाम एवं ऋण खाता संख्या		तिथि	बकाया राशि (रु.)	तिथि तथा प्रकार
1	अमित सैनी लता सैनी H16032180718014444	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः संपत्ति का पता – फ्लैट नं. 1105, 11वीं मंजिल ओएसिस ग्रैनस्टैंड, प्लॉट नं. पी-7, टीएस 02, सेक्टर 22डी, यमुना एक्सप्रेसवे, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। सीमाएँ: पूर्वः 30 मीटर चौड़ी सड़क, पश्चिमः 18 मीटर चौड़ी सड़क, उत्तरः 24 मीटर चौड़ी सड़क, दक्षिणः दूसरे की संपत्ति।	17.12.2017	05.11.2019 को रु. 17,94,842/- (रुपये सत्रह लाख चौरानवे हजार आठ सौ बयालीस मात्र)	सांकेतिक कब्जा 18.08.2023
2	श्री अर्पित भार्गव श्रीमती रुचि भार्गव H13550261018103905 एवं H13550261018103905L	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः यूनिट नं. R0270NE4012A, फ्लैट नं. 4012ए, 40वीं मंजिल, 1860 वर्ग फुट का सुपर एरिया। प्लॉट नं. जीएच01/ए, सेक्टर-74, नॉर्थ आई, अजनारा ग्रैंड हेरिटेज प्रोजेक्ट के पास, जिला गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश - 201301 पर स्थित।	10.00.2020	03/05/2023 को रु. 1,33,01,055.91 (रुपये एक करोड़ तैंतीस लाख एक हजार पचपन और इक्यानबे पैसे मात्र)	सांकेतिक कब्जा 18.08.2023
3	श्री अरविन्द सोनी श्रीमती नीरू सोनी H14591260318052756, H14591260318052756L, H14591140718024450	अनुसूची-1: अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग : यूनिट नं. R203NEAAST2305/फ्लैट नं. 2305, 23वीं मंजिल, टावर ए/नोवा ईस्ट, 2205 वर्ग फीट, सुपरटेक प्राइवेट लिमिटेड 'सुपर नोवा' नामक परियोजना में प्लॉट नं. 3, सेक्टर - 94, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश - 201301 में स्थित। अनुसूची-2: अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः फ्लैट नंबर 4012, सेक्टर-74, सुपरटेक प्रा. लिमिटेड, प्लॉट जीएच-नं. 01, नॉर्थ आई, निकट अजनारा ग्रैंड हेरिटेज प्रोजेक्ट नोएडा उत्तर प्रदेश नोएडा उत्तर प्रदेश 201310 में स्थित	13.03.2023	15-02-2023 को रु. 4,21,22,739.73 (रुपये चार करोड़ इक्कीस लाख बाईस हजार सात सौ उनतालीस और तिहत्तर पैसे मात्र)	सांकेतिक कब्जा 18.08.2023
4	आशीष बी लाल शतरूपा मापरू H14000130118011050 और H14000130118011050L	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग : यूनिट नंबर R023S100053, विला 53 टावर/ब्लॉक एस1 में 2795 वर्ग फुट का क्षेत्रफल, परियोजना नाम यूपी कंट्री में, प्लॉट नं. टीएस-01, सेक्टर 17ए, गलगोटिया यूनिवर्सिटी के पास, यमुना एक्सप्रेसवे, उत्तर प्रदेश-201310 में स्थित		03/05/2023 को रु. 1,35,76,323.26 (रुपये एक करोड़ पैंतीस लाख छिहत्तर हजार तीन सौ तेईस और छब्बीस पैसे मात्र)	सांकेतिक कब्जा 18.08.2023
1	भारत				0 0

	H1	14591260318052756, 14591260318052756L, 14591140718024450	मजिल, टावर ए∕नावा इंस्ट, 2205 वर्ग फीट, सुपरटेक प्राइवेट लिमिटेड 'सुपर नीवा' नामक परियोजना में प्लॉट नं. 3, सेक्टर – 94, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश – 201301 में स्थित। अनुसूची−2: अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः फ्लैट नंबर 4012, सेक्टर−74, सुपरटेक प्रा. लिमिटेड, फ्लॉट जीएच−नं. 01, नॉर्थ आई, निकट अजनारा ग्रैंड हेरिटेज प्रोजेक्ट नोएडा उत्तर प्रदेश नोएडा उत्तर प्रदेश 201310 में स्थित		(रुपय चार कराड़ इक्कास लाख बाइस हजार सात सौ उनतालीस और तिहत्तर पैसे मात्र)	केब्जा 18.08.2023
	शत H1	ाशीष बी लाल तरूपा मापरू 14000130118011050 और 14000130118011050L	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग : यूनिट नंबर R023S100053, विला 53 टावर/ब्लॉक एस1 में 2795 वर्ग फुट का क्षेत्रफल, परियोजना नाम यूपी कंट्री में, प्लॉट नं. टीएस-01, सेक्टर 17ए, गलगोटिया यूनिवर्सिटी के पास, यमुना एक्सप्रेसवे, उत्तर प्रदेश-201310 में स्थित	15.05.2025	03/05/2023 को रु. 1,35,76,323.26 (रुपये एक करोड़ पैंतीस लाख छिहत्तर हजार तीन सौ तेईस और छब्बीस पैसे मात्र)	सांकेतिक कब्जा 18.08.2023
	H1	ारत ोम प्रकाश 14699270618051011 और 14699270618051011L	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः यूनिट नं. R0270NE4106, 41वीं मंजिल पर फ्लैट नंबर 4106, सुपर एरिया 1860 वर्ग फीट, प्लॉट नं. जीएच – 01/ए, सेक्टर नं. 74, नॉर्थ आई, अजनारा ग्रैंड हेरिटेज प्रोजेक्ट के पास, जिला गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301 पर स्थित		03/05/2023 को रु. 1,37,55,292.21 (रुपये एक करोड़ सैंतीस लाख पचपन हजार दो सौ बानवे और इक्कीस पैसे मात्र)	सांकेतिक कब्जा 18.08.2023
	चंडि H1	भु प्रसाद त्रिपाठी द्रिका चंद्रकांता 13550110918015607 और 13550110918015607L	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः यूनिट नं. R0270NE3812A, फ्लैट नंबर 3812ए, 38वीं मंजिल, सुपर एरिया 1860 वर्ग फुट, प्लॉट नंबर जीएच 01, सेक्टर -74, नॉर्थ आई, अजनारा ग्रैंड हेरिटेज प्रोजेक्ट के पास, जिला गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश - 201301 पर स्थित	15.05.2023	03/05/2023 को रु. 1,70,89,628.35 (रुपये एक करोड़ सत्तर लाख नवासी हजार छह सौ अट्ठाईस और पैंतीस पैसे मात्र)	सांकेतिक कब्जा 18.08.2023
ı	7 11113	रत गोयल	1. अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग : यूनिट नंबर R0270NWW0404, फ्लैट नंबर 404, चौथी मंजिल	45.05.000	03/05/2023 को रु. 2.38.01.230.41	गांकेविक

15.05.2023 पर 1240 वर्ग फट का क्षेत्रफल, प्लॉट नंबर जीएच 01/ए, सेक्टर -74, नॉर्थ आई, अजनारा ग्रैंड हेरिटेज नीति गोयल (रुपये दो करोड़ अड़तीस लाख कब्जा प्रोजेक्ट के पास, जिला गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश - 201301 पर स्थित H13551200519031911 और एक हजार दो सौ तीस और 18.08.2023 2. अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः यूनिट नंबर फ0270ठहह0504, फ्लैट नंबर 504, 5वीं मंजिल पर H13551280519024004 और इकतालीस पैसे मात्र) 1240 वर्ग फुट का क्षेत्रफल, प्लॉट नंबर जीएच 01/ए, सेक्टर -74, नॉर्थ आई, अजनारा ग्रैंड हेरिटेज प्रोजेक्ट H13551200519031911L और के पास, जिला गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश - 201301 पर स्थित H13551280519024004L

अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः यूनिट नं. R203NWEST2008/ फ्लैट नं. 2008, 20वीं मंजिल, 8 श्री गरिंदर सिंह सांकेतिक 11.05.2023 को रु. 3,01,47,875.60 टावर नोवा वेस्ट (बी), 2105 वर्ग फुट का क्षेत्रफल, सुपरटेक रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड में, प्रोजेक्ट 'सुपर (रुपये तीन करोड एक लाख सैंतालीस कब्जा नोवा' में प्लॉट नंबर- 3, सेक्टर- 94, नोएडा, उत्तर प्रदेश- 201303 में स्थित। सीमाएं: पूर्व: 24 मीटर नीलिमा रात्रा हजार आठ सौ पचहत्तर और

18.08.2023 चौड़ी सड़क, पश्चिमः 30 मीटर चौड़ी सड़क, उत्तरः निजी संपत्ति, दक्षिणः अन्य की संपत्ति। H14699170918075306 साठ पैसे मात्र) १ मनुज महाजन सरोज महाजन अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः यूनिट नं. R0270NE4004, फ्लैट नंबर 4004, 40वीं मंजिल पर सांकेतिक 03/05/2023 को रु. 1,40,94,290.89 एवरेस्ट कैंची (इसके मालिक 1860 वर्ग फुट का सुपर एरिया, प्लॉट नंबर जीएच 01/ए, सेक्टर -74, नॉर्थ आई, अजनारा ग्रैंड हेरिटेज (रुपये एक करोड़ चालीस लाख चौरानवे प्रोजेक्ट के पास, जिला गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश - 201301 पर स्थित मनज महाजन के माध्यम से) हजार दो सौ नब्बे और नवासी पैसे मात्र) 18.08.2023 H14977180818052430 और

H14977180818052430L 03/05/2023 को रु. 1,53,13,419.67 राहुल गुप्ता अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः यूनिट नंबर R0270NE4009, फ्लैट नं. 4009, 40वीं मंजिल पर, सांकेतिक 15.05.2023 (रुपये एक करोड़ तिरपन लाख तेरह 1860 वर्गफुट का सुपर एरिया, प्लॉट नं. जीएच 01/ए, सेक्टर -74, नॉर्थ आई, अजनारा ग्रैंड हेरिटेज प्रोजेक्ट कब्जा हजार चार सौ उन्नीस और के पास, जिला गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश - 201301 पर स्थित H13551200918060912 और 18.08.2023 सड़सठ पैसे मात्र) H13551200918060912L

निधि गुप्ता अनुसूची-1ः अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग ः यूनिट नं. R0270NEW0602, फ्लैट नंबर 0602, 6ठी सांकेतिक 03/05/2023 को रु. 2,36,33,809.51 पूजा गुप्ता मंजिल पर, 1425 वर्ग फीट का सुपर एरिया, प्लॉट नंबर जीएच 01/ए, सेक्टर -74, नॉर्थ आई, अजनारा (रुपये दो करोड़ छत्तीस लाख तैंतीस असीमित मृत्यु (इसके मालिक ग्रैंड हेरिटेज प्रोजेक्ट के पास, जिला गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश - 201301 पर स्थित हजार आठ सौ नौ और रमन गुप्ता के माध्यम से) अनुसूची-2: अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग : यूनिट नंबर R0270NEW0404, फ्लैट नंबर 404, इक्यावन पैसे मात्र) H13801270319055819 और 04वीं मंजिल पर 1240 वर्ग फीट का सुपर एरिया, प्लॉट नंबर जीएच 01/ए, सेक्टर -74, नॉर्थ आई, अजनारा H13801180419122230 और ग्रैंड हेरिटेज प्रोजेक्ट के पास, जिला गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश - 201301 पर स्थित H13801180419122230L और

H13801270319055819L 12 सचिन गर्ग 03/05/2023 को रु. 1,50,84,091.14 सांकेतिक अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः यूनिट नं. R026CC20102, फ्लैट नंबर 0102, 01वीं मंजिल पर नेहा गर्ग (रुपये एक करोड पचास लाख चौरासी 2495 वर्ग फीट का सुपर एरिया, प्लॉट नंबर जीएच 01/ए, सेक्टर -74, नॉर्थ आई, अजनारा ग्रैंड हेरिटेज कब्जा H12655241217043621 और हजार इक्यानबे और चौदह पैसे मात्र) प्रोजेक्ट के पास, जिला गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश - 201301 पर स्थित 18.08.2023 H12655241217043621L कमर सिद्दीकी 03/05/2023 को रु. 2,41,04,609.36 सांकेतिक अनुसूची-1ः अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः संपत्ति का पताः यूनिट नं. R0270NE0929, फ्लैट नंबर शर्मीला शम्सी

(रुपये दो करोड़ इकतालीस लाख चार 929, 09वीं मंजिल पर 535 वर्ग फीट का सुपर एरिया, प्लॉट नंबर जीएच 01/ए, सेक्टर -74, नॉर्थ आई, एमएमएल सॉल्युशन (इसके अजनारा ग्रैंड हेरिटेज प्रोजेक्ट के पास, जिला गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश - 201301 पर स्थित हजार छह सौ नौ और छत्तीस पैसे मात्र) 18.08.2023 मालिक कमर सिद्दीकी अनुसूची-2: अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग, पताः युनिट नं. R0270NE3708, फ्लैट नंबर 3708, के माध्यम से) 37वीं मंजिल पर 1860 वर्ग फीट का सुपर एरिया, प्लॉट नंबर जीएच 01/ए, सेक्टर -74, नॉर्थ आई, अजनारा H16933250419121748 और ग्रैंड हेरिटेज प्रोजेक्ट के पास, जिला गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश - 201301 पर स्थित H17500300719083317

अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः यूनिट नं. R0270NE3607, फ्लैट नंबर 3607, 36वीं मंजिल पर 03/05/2023 को रु. 1,37,06,985.80 सांकेतिक 15.05.2023 1640 वर्ग फीट का सुपर एरिया, प्लॉट नंबर जीएच 01/ए, सेक्टर -74, नॉर्थ आई, अजनारा ग्रैंड हेरिटेज (रुपये एक करोड़ सैंतीस लाख कब्जा H14977200218030922 और प्रोजेक्ट के पास, जिला गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश - 201301 पर स्थित छह हजार नौ सौ पचासी और 18.08.2023 H14977200218030922L अस्सी पैसे मात्र)

गुरुग्राम (हरियाणा)-122004 वेबसाइट : www.unominda.com, ई-मेल : investor@unominda.com

दूरभाष : +91 11 4937 3931, +91 124 2290 427 फैक्स : +91 124 2290676

क्रमांक 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल 2020, सामान्य परिपत्र क्रमांक 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020, सामान्य परिपत्र क्रमांक 20/2020 दिनांक 5 मई 2020. सामान्य परिपत्र क्रमांक 02/2021 दिनांक 13 जनवरी 2021, सामान्य परिपत्र 2/2022 दिनांक 5 मई 2022, सामान्य परिपत्र 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर 2022, सामान्य परिपत्र 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर 2022 के साथ पठित भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड ('सेबी') (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 और सेबी द्वारा जारी अन्य लागू परिपत्र (सामृहिक रूप से 'प्रासंगिक परिपत्र' सन्दर्भित) के सभी लागू प्रावधानों के अनुपालन में एजीएम बुलाने वाले नोटिस में निर्धारित व्यवसायों को संचालित करने के लिए कंपनी की 31वीं वार्षिक आम बैठक बुधवार, 20 सितंबर, 2023 को सुबह 10:30 बजे (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') /अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों ('**ओएवीएम**') के माध्यम से आयोजित की जाएगी। सदस्य वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकेंगे या https://www.evoting.nsdl.com पर लाइव वेबकास्ट देख सकेंगे। वीसी/ओएवीएम सविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों

स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरणों की सूचना कंपनी के उन सभी सदस्यों को भेजी जाएगी जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास पंजीकृत हैं। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट https://www.unominda.com/, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com और स्टॉक की वेबसाइट एक्सचेंज, यानी, बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर

यदि सदस्य डिमटेरियलाइज्ड मोड में शेयर धारित करते हैं तो उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंक डीपीआईडी+ सीएलआईडी या 16 अंक लाभार्थी आईडी) नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति, और सदस्य के पते के समर्थन में किसी दस्तावेज (जैसे: आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव पहचान पत्र, पासपोर्ट) की प्रति का उल्लेख करते हुए हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की प्रति के साथ कंपनी को लिखकर अपने ईमेल पते को अस्थायी रूप से अपडेट करें।

पते को पंजीकृत करने में किसी भी प्रश्न / कठिनाइयों के मामले में, सदस्य investor@unominda.com को लिख सकते हैं। 4. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने की अंतिम तिथि 13 सितंबर, 2023 है;

i. रिमोट ई-वोटिंग शुक्रवार, 15 सितंबर, 2023 (सुबह 9:00 बजे भा.मा.स.) से शुरू होगी;

i. सदस्यों को एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी सदस्य ई-वोटिंग क्रेडेंशियल का उपयोग करके सदस्य लॉगिन के तहत https://www.evoting.nsdl.com पर इसे एक्सेस कर सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद सदस्य कंपनी के नाम के सामने "Join General Meeting" मेनू के अंतर्गत "VC/OAVM link" का लिंक देख सकते हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि "Join General Meeting" मेनू के अंतर्गत "VC/OAVM link" लिंक पर क्लिक करें। वीसी/ओएवीएम का लिंक Shareholder/Member login में उपलब्ध होगा जहां कंपनी का ईवीईएन प्रदर्शित किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए युजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या वे युजर आईडी और पासवर्ड

भूल गए हैं, वे एजीएम के नोटिस में उल्लिखित ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।

ii. सदस्य नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले और बाद में वीसी/ओएवीएम मोड में एजीएम में शामिल हो सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भागीदारी की सविधा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 1000 सदस्यों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बड़े शेयरधारक (2% या अधिक शेयरधारिता रखने वाले शेयरधारक), प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, ऑडिट सिमिति के अध्यक्ष, नामांकन और पारिश्रमिक सिमिति और हितधारक संबंध समिति, लेखा परीक्षक आदि शामिल नहीं होंगे, जिन्हें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बिना किसी प्रतिबंध के एजीएम में भाग लेने की अनमति है।

प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 1 रुपये के लाभांश के भूगतान की सिफारिश की, बशर्ते कि एजीएम में सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त हो। लाभांश, यदि सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो लाभांश प्राप्त करने के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड तिथि यानी 31 अगस्त, 2023 को कंपनी के इक्विटी शेयर धारक सदस्यों को भुगतान किया जाएगा। उन सदस्यों को, जिन्होंने अपने बैंक खातों को अपने संबंधित डीपी या कंपनी के साथ पंजीकृत किया है, लाभांश का भुगतान सीधे उक्त बैंक खाते में ऑनलाइन किया जाएगा। अन्य सदस्यों के लिए लाभांश के भुगतान के लिए 'पेबल-एट-पार' वारंट या चेक जारी किए जाएंगे।

हैं, उनसे अनरोध है कि वे अपने बैंक खाते के विवरण पंजीकृत करने के लिए अपने संबंधित डीपी से संपर्क करें। कंपनी के इक्विटी शेयर भौतिक रूप में रखने वाले सदस्य और जिन्होंने अपने बैंक विवरण पंजीकृत नहीं किए हैं, वे इस लिंक https://linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html पर क्लिक करके और उसमें बताए अनुसार पंजीकरण प्रक्रिया का पालन करके लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ अपने बैंक विवरण पंजीकृत कर सकते हैं। इसके अलावा, सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने वैध पैन को अपने संबंधित डीपी (यदि शेयर डीमटेरियलाइज्ड रूप में रखे गए हैं) और कंपनी (यदि शेयर भौतिक रूप में रखे गए हैं) के साथ अपडेट करें।

की आवासीय स्थिति और वर्गीकरण, कंपनी द्वारा प्रस्तुत और स्वीकार किए गए दस्तावेजों पर आधारित होगी। सदस्यों को विस्तृत सूचना पहले ही उन सदस्यों को भेज दी गई थी जिनकी ई-मेल आईडी कंपनी और डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट पर भी इसका खुलासा किया गया है:

जिन सदस्यों को एजीएम से पहले या उसके दौरान प्रौद्योगिकी के उपयोग से सहायता की आवश्यकता है, वे evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 1800-1020-990 और 1800-224-430 का उपयोग कर सकते हैं। संस्थागत सदस्यों को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यदि किसी संस्थागत सदस्य

को एजीएम में भाग लेने में दिक्कत आ रही है तो वह investor@unominda.com और evoting@nsdl.co.in पर लिख सकता है। किसी भी प्रकार की कनेक्टिविटी संबंधी गड़बड़ियों को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की अनुशंसा 0. सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम के नोटिस में दिए गए सभी नोट्स और विशेष रूप से, एजीएम में शामिल होने के निर्देश, रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के तरीके को ध्यान से पहें।

तरूण कुमार श्रीवास्तव

स्थानः गुरूग्राम, हरियाणा दिनांकः 22 अगस्त, 2023

www.readwhere.com

से सहमत शर्तों के अनसार, निजी संधि के माध्यम से बिक्री के लिए उपलब्ध है।

निजी संधि के माध्यम से संपत्ति की बिक्री के लिए मानक नियम और शर्तें इस प्रकार हैं:

क्रेता को आवेदन के साथ प्रस्तावित राशि का 10: जमा करना होगा जिसे नीचे दिए गए खंड (3) के

की गई राशि का 10% सहित पहले से भुगतान की गई राशि जब्त कर ली जाएगी।

पेगासस द्वारा क्रेता के प्रस्ताव को स्वीकार न करने की स्थिति में, आवेदन के साथ भगतान की गई 10%

तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। अलावा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पते के प्रमाण की प्रति, कंपनी के मामले में, कंपनी के निदेशकों के बोर्ड

द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति जमा करनी होगी। बिक्री पेगासस से पुष्टि के अधीन है। यदि उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर बिक्री की तारीख से पहले

पर या उससे पहले जमा करना होगा।

. क्रेता को अपनी संतुष्टि के लिए संपत्ति (निजी संधि के माध्यम से बिक्री के तहत) से संबंधित सभी पहलुओ क्रेता सुरक्षित संपत्ति के खिलाफ लंबित मुकदमे पर उचित परिश्रम करेगा, क्रेता बाद की तारीख में इस

. यदि कोई बोलीदाता आरक्षित मुल्य (अर्थात रु.39.61,000 / –) और या उससे अधिक के अनुरूप अपनी


5. बिक्री सरफेसी अधिनियम / नियमों के प्रावधानों के अनुसार होगी। 6. इच्छुक पार्टियां अधिक विवरण / स्पष्टीकरण और अपना आवेदन जमा करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी रे

संपत्ति का विवरण

वैशाली गाजियाबाद (युपी)-201001, क्षेत्रफल 474.89 वर्ग मीटर"। संपत्तियां नहीं बेची जाएंगी)

्यह प्रकाशन प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, २००२ के नियम ८(६) और ९(१) के तहत उधारकर्ताओं / गारंटरों के लिए 'पंद्रह दिन' का नोटिस भी है। प्राधिकृत अधिकारी पेगासस एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड

ऊनो मिंडा लिमिटेड (पूर्व की मिंडा इण्डस्ट्रीज लिमिटेड) (सीआईएन : L74899DL1992PLC050333)



स्थानः पुणे

दिनांकः 22 अगस्त, 2023

ऊनो मिंडा लिमिटेड (पूर्व में मिंडा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से) की 31वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') के बारे में जानकारी 1. कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों और कॉपोर्रेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') एवं सेबी द्वारा जारी सामान्य परिपत्र

को कंपनी अधिनियम. 2013 की धारा 103 के तहत कोरम के प्रयोजन के लिए गिना जाएगा . प्रासंगिक परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए बोर्ड की रिपोर्ट और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ एजीएम और

3. ईमेल पते को पंजीकृत/अद्यतन करने का तरीका: जिन सदस्यों के पास भौतिक रूप में शेयर हैं और जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ईमेल पते अपडेट नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे सदस्य के फोलियो नंबर, नाम और पते, शेयर प्रमाणपत्र (आगे और पीछे) की स्कैन कॉपी, पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति, और सदस्य के पते के समर्थन में कोई भी दस्तावेज (जैसे: आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव पहचान पत्र, पासपोर्ट) का उल्लेख करते हुए हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की प्रति के साथ कंपनी को पत्र लिखकर अपने ईमेल पते अपडेट करें।

सदस्यों द्वारा उक्त अनुरोध 25 अगस्त, 2023 को या उससे पहले कंपनी को investor@unominda.com पर भेजा जाएगा। ई-मेल

ii. रिमोट ई-वोटिंग मंगलवार, 19 सितंबर, 2023 (शाम 5:00 बजे भा.मा.स.) को समाप्त होगी; 5. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने की प्रक्रिया:

कंपनी के निदेशक मंडल ने 18 मई, 2023 को हुई अपनी बैठक में 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 2 रुपये अंकित मुल्य के

भविष्य में लाभांश के लिए, डीमैट रूप में कंपनी के इक्विटी शेयर धारक सदस्यों और जिन्होंने अपने बैंक विवरण पंजीकृत/अद्यतन नहीं किए

आयकर अधिनियम, 1961, ('आईटी अधिनियम') के प्रावधानों के अनुसार, लाभांश आय सदस्यों के हाथों कर योग्य होगी और कंपनी को भूगतान किए गए लाभांश से निर्धारित दर पर स्रोत पर कर काटने की आवश्यकता होगी। निर्धारित दरों के लिए, स्रोत पर कर की कटौती सदस्यो

बोर्ड के आदेशानुसार कृते ऊनो मिंडा लिमिटेड (पूर्व में मिंडा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से)

बीएसई https://www.bseindia.com/xml-data/corpfiling/AttachLive/e2d6e725-7da6-4e27-bae3-13357496e2da.pdf एनएसई https://archives.nseindia.com/corporate/UNOMINDA_21082023182228_communication_to_shareholders_WHT_docs.pdf

14 संजीब घटक

दिनांक: 23.08.2023 स्थानः नोएडा

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

विशेष रूप से कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर और सामान्य रूप से जनता को आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति का लेन-देन न करें और संपत्ति का कोई भी लेन-देन मांग सूचना की तारीख से भुगतान/वसूली तक अतिरिक्त ब्याज

और अन्य शुल्क सहित मांग सूचना में उल्लिखित राशि के लिए सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (असाइनी – सीएफएमएआरसी ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत) के प्रभार के अधीन होगा

कृते एवं के लिये प्रंबंध निदेशक.

हस्ता./- विजय कुमार सुरी DIN-01516436

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतू) नियम 8–(1) जबिक, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इंफोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लि. के रूप में अभिज्ञात